



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रकाशरण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 260]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 10, 1972/आश्विन 18, 1894

No. 260]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 10, 1972/ASVINA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 9th October 1972

G.S.R. 433(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following regulations, namely:—

2. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) sixth Amendment Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

1. Senior posts under the Union Territories

79

Posts under the Delhi Administration

Chief Secretary of the Administration	1
Financial Commissioner	1
Director of Vigilance	1
Deputy Commissioner	1
Development Commissioner-cum-Director of Social Welfare	1
Director of Employment Training & Technical Education	1
Commissioner, Food and Supplies	1
Commissioner of Sales Tax	1

(2025)

Secretaries of Administration	4
Secretary to the Lieutenant Governor	1
Director of Industries	1
Labour Commissioner	1
Director of Transport	1
Registrar of Co-operative Societies	1
Deputy Housing Commissioner	1
Excise Commissioner	1
Deputy Secretaries	5
Additional District Magistrates	3
	<hr/>
	27

Posts under the Government of Pondicherry

Chief Secretary to the Government	1
Secretaries to the Government	3
Secretary to the Lieutenant Governor	1
	<hr/>
	5

Posts under the Andaman and Nicobar Administration

Chief Secretary	1
Development Commissioner-cum-Development Secretary	1
Secretary (Finance) to the Chief Commissioner	1
Deputy Commissioner	1
Additional Deputy Commissioner	1
	<hr/>
	5

Posts Under the Laccadive Minicoy and Amindivi Administration

Administrator	1
Collector-cum-Development Commissioner	1
	<hr/>
	2

Posts under the Government of Goa, Daman and Diu

Chief Secretary to the Government	1
Secretary (Planning)-cum-Development Commissioner	1
Secretaries to the Government	2
Secretary to the Lieutenant Governor	1
Collectors and District Magistrates	2
Director of Industries and Mines	1
Commissioner, Sales Tax, Entertainment Tax and Excise	1
	<hr/>
	9

Posts under the Chandigarh Administration

Secretaries to the Administration	2
Deputy Commissioner	1
	<hr/>
	3

Posts under the Government of Mizoram

Chief Secretary to the Government	1
Development Commissioner	1
Finance Secretary	1
Deputy Commissioner	3
	<hr/> 6

Posts under the Arunachal Pradesh Administration

Chief Secretary	1
Security Commissioner	1
Secretaries	4
Director, Supply and Transport	1
Deputy Director, Supply and Transport	1
Deputy Secretaries	3
Deputy Commissioners	5
Additional Deputy Commissioners	6
	<hr/> 22
	79
2. Central Deputation Reserve @ 40% of 1 above.	31
	<hr/> 111

3. Posts to be filled by promotion and Selection under rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 @ 25% of 1 & 2 above.	27
4. Posts to be filled by Direct Recruitment (1 and 2 minus 3 above).	84
5. Deputation Reserve @ 20% of 4 above.	22*
6. Leave Reserve @ 5% of 4 above.	4
7. Junior posts @ 20.60% of 4 above.	17
8. Training Reserve @ 10.59% of 4 above.	9
	<hr/>
Direct Recruitment Posts	136
Promotion Posts	27
Total Authorised Strength	<hr/> 163

*Includes 5 posts in excess of 20%.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1972

सां० को०नि० 433(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 में नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1. संघ शासित क्षेत्र के अधीन वरिष्ठ पद 79

दिल्ली प्रशासन के अधीन पद

प्रशासन के मुख्य सचिव	1
वित्त आयुक्त	1
सतर्कता निदेशक	1
उप आयुक्त	1
विकास आयुक्त—सह-समाज कल्याण निदेशक	1
रोजगार प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशक	1
खाद्य तथा पूर्ति आयुक्त	1
बित्री कर आयुक्त	1
प्रशासन के सचिव	4
उप राज्यपाल के सचिव	1
उद्योग निदेशक	1
श्रम आयुक्त	1
परिवहन निदेशक	1
सहकारी समितियों रजिस्ट्रार	1
आवास उप आयुक्त	1
आवकारी आयुक्त	1
उप सचिव	5
प्रवर जिला दण्डाधिकारी	3

पांडिचेरी सरकार के अधीन पद

सरकार के मुख्य सचिव	1
सरकार के सचिव	3
उप राज्यपाल के सचिव	1
	<hr/>
	5

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन पद

मुख्य सचिव	1
विकास आयुक्त-सह-विकास सचिव	1
मुख्य आयुक्त के सचिव (वित्त)	1
उप आयुक्त	1
अपर उप आयुक्त	1
	<hr/>
	5

लकादीव, मिनीकाय तथा अमीनदिवि प्रशासन के अधीन पद

प्रशासक	1
समाहर्ता-सह-विकास आयुक्त	1
	<hr/>
	2

गोवा, दमन तथा दीव सरकार के अधीन पद

सरकार के मुख्य सचिव	1
सचिव (आयोजना)-सह-विकास आयुक्त	1
सरकार के सचिव	2
उप राज्यपाल के सचिव	1
समाहर्ता तथा जिला दण्डाधिकारी	2
उद्योग तथा खान निदेशक	1
आयुक्त, बित्री-कर, मनोरंजन-कर तथा आबकारी	1
	<hr/>
	9

चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन पद

प्रशासन के सचिव	2
उप आयुक्त	1
	<hr/>
	3

मिजोराम सरकार के अधीन पद

सरकार के मुख्य सचिव	1
विकास आयुक्त	1
धिस सचिव	1
उप आयुक्त	3

6

अरुणाचल प्रदेश प्रशासन के अधीन पद

मुख्य सचिव	1
सुरक्षा आयुक्त	1
सचिव	4
पूर्ति तथा परिवहन निदेशक	1
पूर्ति तथा परिवहन उप निदेशक	1
उप सचिव	3
उप आयुक्त	5
अपर उप आयुक्त	6

22 79

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 के 40 प्रतिशत के हिसाब से 32

111

3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 9 के अधीन पदोन्नति तथा प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्रतिशत के हिसाब से 27

4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में 3 घटा कर 84

5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से 22*

6. छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से 4

7. कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20.60 प्रतिशत के हिसाब से 17

8. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10.59 प्रतिशत के हिसाब से 9

सीधी भर्ती वाले पद 136

पदोन्नति वाले पद 27

कुल प्राधिकृत संख्या 163

* 20 प्रतिशत के अतिरिक्त 5 पद शामिल हैं।

[संख्या 33/17/71-अ०भा०से०(II)-क]

G.S.R. 434(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following amendments to Schedule III appended to the said rules;

2. (1) These amendments may be called the twelfth Amendment of 1972 to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(2) These amendments shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the said schedule III, under the heading "A-Posts carrying pay above senior scale pay in the Indian Administrative Service under the State Governments" in the Table for the entries occurring in the second and third columns against the entries of States shown in the first column the following shall be substituted:—

State Union Territories	Particulars of posts	Pay/Scale of Pay
-------------------------------	----------------------	------------------

DELHI ADMINISTRATION

Chief Secretary	Rs. 2500—125/2—2750
Financial Commissioner	Rs. 2500—125/2—2750
Commissioner, Municipal Corporation of Delhi	Rs. 2500—125/2—2750
General Manager, Delhi Transport Corporation	Rs. 2500—125/2—2750

GOVERNMENT OF GOA, DAMAN AND DIU

Chief Secretary	Rs. 2500—125/2—2750
-----------------	---------------------

GOVERNMENT OF MIZORAM

Chief Secretary	Rs. 2500—125/2—2750
-----------------	---------------------

ARUNACHAL PRADESH ADMINISTRATION

Chief Secretary	Rs. 2500—125/2—2750
Security Commissioner	Rs. 2500—125/2—2750

4. Under the heading "B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments, including posts carrying special pay in addition to pay in the senior scale", in the Table for the entries occurring in second column against the entries of States shown in the first column the following shall be substituted:—

State/ Union Territories	Particulars of Posts
--------------------------------	----------------------

POSTS UNDER THE DELHI ADMINISTRATION

Director of Vigilance
Deputy Commissioner
Development Commissioner-cum-Director of Social Welfare
Director of Employment Training and Technical Education
President, New Delhi Municipal Committee
Deputy Commissioner, Municipal Corporation of Delhi
Commissioner, Food and Supply
Commissioner of Sales Tax
Secretaries of Administration
Secretary to the Lieutenant Governor
Director of Industries
Labour Commissioner

Director of Transport
Registrar of Cooperative Societies
Deputy Housing Commissioner
Excise Commissioner
Deputy Secretaries
Additional District Magistrates

POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF PONDICHERRY

Chief Secretary to the Government
Secretaries to the Government
Secretary to the Lieutenant Governor

POSTS UNDER THE ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION

Chief Secretary
Development Commissioner-cum-Development Secretary
Secretary (Finance) to the Chief Commissioner
Deputy Commissioner
Additional Deputy Commissioner

POSTS UNDER THE LACCADIVE MINICOIY AND AMINIDIVI ADMINISTRATION

Administrator
Collector-cum-Development Commissioner.

POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF GOA, DAMAN AND DIU

Secretary (Planning)-cum-Development Commissioner
Secretaries to the Government
Secretary to the Lieutenant Governor
Collectors and District Magistrates
Director of Industries and Mines
Commissioner, Sales Tax, Entertainment Tax and Excise

POSTS UNDER THE CHANDIGARH ADMINISTRATION

Secretaries to the Administration
Deputy Commissioners

POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF MIZORAM

Development Commissioner
Finance Secretary
Deputy Commissioners

POSTS UNDER THE ARUNACHAL PRADESH ADMINISTRATION

Secretaries
Director, Supply and Transport
Deputy Director, Supply and Transport
Deputy Secretaries
Deputy Commissioners
Additional Deputy Commissioners.

[No. 33/17/71-AIS(II)-B.]*

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy,

सांका०नि० 434(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (बेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-3 में, एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. (1) इन संशोधनों को भारतीय प्रशासन सेवा (बेतन) नियम, 1954 में 1972 का बारहवां संशोधन कहा जा सकेगा।

(2) ये संशोधन सरकारी गजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

3. उक्त अनुसूची-III में “क-राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में वरिष्ठ बेतनमान से अधिक बेतन वाले पद” शीर्षक के अधीन सारणी में प्रथम कालम में दिये गये राज्यों की प्रविष्टियों के सामने दूसरे तथा तीसरे कालम में दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

राज्य	पदों का विवरण	बेतन/बेतनमान
-------	---------------	--------------

संघ शासित क्षेत्र

दिल्ली प्रशासन

मुख्य सचिव रुपए 2500-125/2-2750

खाद्य तथा पूर्ति आयुक्त

बित्रीकर आयुक्त

प्रशासन के सचिव

उप राज्यपाल के सचिव

उद्योग निदेशक

श्रम आयुक्त

परिवहन निदेशक

सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार

आवास उपायुक्त

आबकारी आयुक्त

उप सचिव

अपर जिला दण्डाधिकारी

पाँडिचेरी सरकार के अधीन पद]

सरकार के मुख्य सचिव

सरकार के सचिव

उप राज्यपाल के सचिव

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन पद

मुख्य सचिव

विकास आयुक्त-सह-विकास सचिव

मुख्य आयुक्त के सचिव (वित्त)

उप आयुक्त

अपर उप आयुक्त

लका शीव, मिनीकाय तथा अमीनदिवी प्रशासन के अधीन पद

प्रशासक

समाहर्ता-सह-विकास आयुक्त

वित्त आयुक्त रुपए 2500-125/2-2750

आयुक्त, दिल्ली नगर निगम रुपए 2500-125/2-2750

महाप्रबन्धक, दिल्ली परिवहन निगम रुपए 2500-125/2-2750

गोआ, दमन, दीव सरकार

मुख्य सचिव रुपए 2500-125/2-2750

† मजोराम सरकार

मुख्य सचिव रुपए 2500-125/2-2750

अरुणाचल प्रदेश प्रशासन

मुख्य सचिव रुपए 2500-125/2-2750

सुरक्षा आयुक्त रुपए 2500-125/2-2750

4. “ख-राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के बरिष्ठ वेतनमान के वेतन वाले पद, जिनमें बरिष्ठ वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल हैं” शीर्षक के अन्तर्गत मारणी में पहले कालम में राज्यों की प्रविष्टियों के सामने दूसरे कालम में दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

राज्य पदों का विवरण
संघ शासित क्षेत्र

दिल्ली प्रशासन के अधीन पद

सतर्कता निदेशक

उप-आयुक्त

विकास आयुक्त-सह-समाज कल्याण निदेशक

रोजगार प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशक

अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका

उपायुक्त, दिल्ली नगर निगम

गोआ दमन दीव सरकार के अधीन पद

सचिव (आयोजना)-सह-विकास आयुक्त

सरकार के सचिव

उप राज्यपाल के सचिव

समाहर्ता तथा जिला दण्डाधिकारी

उद्योग तथा खान निदेशक

आयुक्त, बित्री-कर, मनोरंजन कर तथा श्रावकारी

चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन पद

प्रशासन के सचिव

उप-आयुक्त

मिजोराम सरकार के अधीन पद

विकास आयुक्त

वित्त सचिव

उप-आयुक्त

अरुणाचल प्रदेश प्रशासन के अधीन पद

सचिव

पूर्ति तथा परिवहन निदेशक

पूर्ति तथा परिवहन उप-निदेशक

उप-सचिव

उप-आयुक्त

अपर उप-आयुक्त

[संख्या 33/17/71-अ०भा०से० (II)-ख]

श्रवण कुमार, संयुक्त सचिव ।

